



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930

No. 120]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सलाहकार समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951” से आरम्भ होने वाले और “उद्यमों की दशा में जैसे—” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में,”

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

माधव लाल, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1642(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2009

**S.O. 199(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006, namely:-

In the said notification, for the portion beginning with the brackets, letter and words “(i) in the case of the enterprises” and ending with words, brackets and figures “the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as--” the following shall be substituted, namely,-

“(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as ”

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]

MADHAV LAL, Addl. Secy.

**Foot Note :-** The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1642 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

**का.आ. 200(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1643(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची —I में,

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ज्ञापन की तीन प्रतियां और मध्यम उद्यमों के लिए ज्ञापन की चार प्रतियां फाइल की जानी चाहिए।

(ii) भाग 1 में—

(क) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

“13. संस्थित क्षमता (प्रस्तावित) प्रतिवार्षिक

(i) संयंत्र क

	मात्रा	इकाई
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ii) संयंत्र ख

	मात्रा	इकाई
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें) ;

(iii) अभिसूचीकृति में “(पहले दो खाने” कोष्ठक और शब्दों से आरंभ ने वाले और “(अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए है)” पर समाप्त होने वाले कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“[पहले दो खाने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के कोड के लिए, अगले तीन खाने जिला कोड के लिए, छठा और सातवां खाना उद्यम के प्रवर्ग के लिए (विनिर्माण या सेवा के लिए छठा खाना और सातवां खाना सूक्ष्म और अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए है)]

यह अभिस्वीकृति जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है।”;

(iv) भाग 2 में, -

(क) क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

“14. संस्थित क्षमता प्रतिवार्षिक

(i) संयंत्र क

मात्रा

इकाई

उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ii) संयंत्र ख

मात्रा

इकाई

उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
उत्पाद.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)”;

(v) अभिस्वीकृति के स्थान पर निम्नलिखित अभिस्वीकृति रखी जाएगी, अर्थात् :-

### अभिस्वीकृति

#### भाग 2

मैसर्स.....ने प्ररूप सं.....और निम्नानुसार आबंटित  
उद्यमी ज्ञापन संख्या में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार नीचे उपदर्शित मद/मदों के लिए  
.....पते .....पिन.....पर ज्ञापन संख्या फाइल किया है।

## 2. विनिर्मित किए जाने वाली /प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	विनिर्माण की मद/की गई सेवा का प्रभार	विनिर्माण के मामले में क्षमता	उत्पादन/सेवा के आरंभ की प्रारंभिक तारीख
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)

तिथिवार विनिर्माण के अनुसार संयंत्र और मशीनरी का ब्यौरा

क्रम सं.	संयंत्र और मशीनरी/उपस्कर में विनिर्माण	विनिर्माण की तारीख
1.		
2.		
3.		

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)

4. टिप्पण:- इस अभिस्वीकृति के जारी होने से कोई विधिक अधिकार नहीं प्रदान होता है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/न्यायालय आदेश की विधियों के अधीन अपेक्षित समाशोधन/अनुज्ञप्ति मांग प्राप्त करने के लिए उद्यम अपेक्षित है।

5. सूक्ष्म/लघु से लघु /मध्यम या विपर्ययत प्रवर्ग में परिवर्तन की तारीख

दिन	मास	वर्ष	वर्ष

6. जारी करने की तारीख

--	--	--	--	--	--	--	--

7. क्रियाकलाप की प्रकृति  
(विनिर्माण-1, सेवाएं-2)

8. उद्यम का प्रवर्ग  
(सूक्ष्म -1, लघु-2, मध्यम -3)

256 48/09-2

9 ઉદ્યમી જ્ઞાપન સં.

## भाग-II

“[पहले दो खाने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के कोड के लिए, अगले तीन खाने जिला कोड के लिए, छठा और सातवां खाना उद्यम के प्रवर्ग के लिए (विनिर्माण या सेवा के लिए छठा खाना और सातवां खाना सूक्ष्म और अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए है)]”

तारीख:

स्थानः

## हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा सहित

(ख) अनुसूची -2 में क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“13. “अभिस्वीकृत उद्यमी ज्ञापन” रद्द किए जाने के लिए दायी होगा यदि इकाई छह मास से अधिक के लिए बंद पायी जाती है या फाइल किए गए उद्यमी ज्ञापन में गलत जानकारी दी है या इस अनुसूची के क्रम सं 10 पर अनुदेशों का पालन नहीं किया है (उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन उद्यमी ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी के अधीन किसी जांच द्वारा अनुसरित की जाने वाली लिखित शिकायत पर आधारित आरंभ की जाए ) ।

14. उद्यम पुनः उद्यमी ज्ञापन भाग-2 फाइल करेगा यदि उद्यम की प्रास्थिति संयंत्र और मशीनरी/उपस्करों में विनिधान की वृद्धि/कमी के परिणामस्वरूप सूक्ष्म से लघु या लघु से मध्यम या विपर्ययन परिवर्तित हो जाती है । ऐसे मामलों में पहले जारी की गई अभिस्वीकृति को रद्द किए जाने की आवश्यकता है और रद्द की गई अभिस्वीकृति की प्रति प्रमाणित के साथ रद्दकरण का पत्र उद्योगपति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वह कार्यकरण की अवधि के लिए फायदा यदि कोई हो उठा सके ।

15. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (विनिर्माण और सेवा दोनों) द्वारा फाइल की गई उद्यमी ज्ञापन की तीन प्रतियों में से पहली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रखी जानी चाहिए, दूसरी उद्यमी ज्ञापन संख्या आबंटित कर उद्यमी को वापस की जानी चाहिए और तीसरी प्रति संबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान को अग्रेषित की जानी चाहिए।

16. मध्यम उद्यमों (विनिर्माण और सेवा दोनों) द्वारा फाइल की गई उद्यमी ज्ञापन की चार प्रतियों में से पहली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रखी जानी चाहिए, दूसरी उद्यमी ज्ञापन संख्या आबंटित उद्यमी को वापस की जानी चाहिए और तीसरी प्रति संबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान को अग्रेषित की जानी चाहिए, और चौथी प्रति विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति प्रभाग, सातवां तल, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित की जानी चाहिए ।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनियों सहकारी/ भागीदारी फर्म और न्यासों की दशा में उद्यम के नाम का परिवर्तन यदि कोई हो, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र या राज/संघ राज्यक्षेत्र में उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी को परिवर्तन होने की तीन मास के भीतर सूचना दी जानी चाहिए । स्वामित्व फर्मों की दशा में उसकी संसूचना किसी शपथ पत्र के साथ नाम में परिवर्तन की प्रभावी होने के तीन मास के भीतर दी जानी चाहिए ।”

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

माधव लाल, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं. 1643 (अ) तारीख 29 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी । और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 941(अ), तारीख 7 जून, 2007 द्वारा संशोधन किए गए ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2009

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide number, S.O. 1643 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(A) In Schedule I,-

(i) for the serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,--

“2. THREE COPIES OF MEMORANDUM FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES AND FOUR COPIES FOR MEDIUM ENTERPRISES SHOULD BE FILED.”,

(ii) in PART I,-

(a) for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,--

**"13. INSTALLED CAPACITY (proposed) PER ANNUM**

**(i) PLANT A**

	QTY	UNIT
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

**(ii) PLANT B**

	QTY	UNIT
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

(Add additional sheet, if needed)";

- (iii) in the ACKNOWLEDGEMENT, for the portion beginning with the bracket and words "(First two boxes" and ending with the words and bracket " last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number)", the following shall be substituted, namely,--

"[First two boxes are for State/Union Territory code, next three boxes are for District code, sixth and seventh boxes are for category of enterprise (sixth box for indicating manufacturing or service and seventh box for indicating micro or small or medium) and last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number]

This acknowledgement is valid for a period of two years from the date of issue. ";

- (iv) in PART II,--  
 (a) for the serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,--

**"14. INSTALLED CAPACITY PER ANNUM**

**(i) PLANT A**

	QTY	UNIT
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
PRODUCT .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>



PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

(ii) PLANT B

QTY

UNIT

PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT .....

--	--	--	--	--	--	--	--

(Add additional sheet if needed)";

- (v) for the ACKNOWLEDGEMENT, the following Acknowledgement shall be substituted, namely:-

"Form No. -----"

**ACKNOWLEDGEMENT****PART-II**

1. M/S. .... HAS FILED MEMORANDUM FOR A .....  
(MANUFACTURING/SERVICE) ENTERPRISE AT THE ADDRESS ..... PIN .....  
FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AS PER THE FACTS STATED IN FORM  
NO.....AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS  
BELOW:

2. DETAILS OF ITEM/ITEMS TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED

SL. NO.	Items of manufacture/type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture	Initial date of production/commencement of service
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(add additional sheet if required)

3. DETAILS OF PLANT AND MACHINERY AS PER DATE-WISE INVESTMENT

SL NO.	Investment in Plant and Machinery/Equipments	Date of Investment
1.		
2.		
3.		

(add additional sheet if required)

4. **NOTE:** THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/ LICENCE/ PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT / STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION /COURT ORDERS.’

5. DATE OF CHANGE OF CATEGORY FROM MICRO/SMALL TO SMALL/MEDIUM OR VICE VERSA.

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

6. DATE OF ISSUE

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

7. NATURE OF ACTIVITY  
(MANUFACTURING-1, SERVICES-2)

☐

8. CATEGORY OF ENTERPRISE  
(MICRO-1, SMALL -2, MEDIUM - 3)

☐

9. ENTREPRENEURS MEMORANDUM NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PART-II**

[First two boxes are for State/Union Territory code, next three boxes are for District code, sixth and seventh boxes are for category of enterprise (sixth box for indicating manufacturing or service and seventh box for indicating micro or small or medium) and last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number]

DATE:  
PLACE:

SIGNATURE  
WITH OFFICE SEAL”;

- (B) In Schedule II, after the serial number 12 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,--

“ 13. The Acknowledged Entrepreneurs' Memorandum shall be liable to be cancelled in case the unit is found closed for more than 6 months or furnished wrong information in the Entrepreneurs' Memorandum filed or did not follow the instructions at serial number 10 of this Schedule (to be initiated based on any complaint in writing followed by an enquiry under an official not below the authority notified for accepting the Entrepreneurs' Memorandum under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 8 of the said Act.

14. The enterprise has to file the Entrepreneurs' Memorandum Part II again, in case, the status of the enterprise changes from micro to small or small to medium or vice versa, as a result of enhancement/decrease in the investment in plant and machinery/equipments. In such cases, the acknowledgement issued earlier need to be cancelled and the letter of cancellation along with the copy of the cancelled acknowledgement (certified) should be provided to the industrialist so that it may take benefit, if any, for that period of functioning.

15. Out of the three copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the Micro and Small enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, and third should be forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned.
16. Out of the four copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the medium enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, third forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned and fourth copy should be forwarded to the Micro, Small and Medium Enterprises Policy Division of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), 7<sup>th</sup> floor, A Wing, Nirman Bhavan, New Delhi.
17. In case of companies as defined in Companies Act, 1956, (1 of 1956) cooperative/partnership firms and trusts, the change of name of the enterprise, if any, should be informed to General Manager, District Industries Centre or the authority notified for filing of Entrepreneurs' Memorandum in the State/UT within three months of change. In case of ownership firms, the same should be communicated within three months of effecting the change in name along with an affidavit."

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]

MADHAV LAL, Addl. Secy.

**FootNote:** The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 1643 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006 and further amended vide notification S.O. 941 (E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2007.